



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 14 राँची, शुक्रवार,

11 जनवरी, 2019 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शुद्धि पत्र

4 जनवरी, 2019

अधिसूचना संख्या-परि.आ०वि.-204/2016/39--परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-परि.आ० -349 /2015-418, दिनांक 09 मार्च, 2016 एवं अधिसूचना संख्या-परि०आ०-204/2016-213, दिनांक 08 मार्च, 2018 के द्वारा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, कोल्हान (जिला पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर) हेतु कुल 57 ग्रामीण मार्गों को चिन्हित करते हुए अधिसूचित किया गया था।

सम्प्रति झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2017 के कंडिका-1 में नियम -(2) (इ क) को निम्न रूप से अंतः स्थापित किया जा चुका है :- “नियम (2) (इ क)- **ग्रामीण मार्ग** से अभिप्रेत है ऐसा मार्ग जो किसी ग्राम या नगर को दूसरे ग्राम या नगर से अथवा किसी ग्राम को प्रखंड या अनुमंडल से जोड़ता हो जिसमें साधारण मार्ग (एन० एच०/एस० एच०) का 50% या 30 कि० मी० मार्गांश दोनों में से जो भी कम हो, से अधिक सम्मिलित न हो तथा ऐसे मार्गों का निर्धारण मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-68(3) (ग क) के अंतर्गत किया गया हो।”

उपरोक्त प्रावधानित नियम तथा जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर एवं उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, कोल्हान से प्राप्त प्रतिवेदन के अलोक में अधि०सं०-418 दिनांक 09 मार्च, 2016 एवं अधिसूचना संख्या-213, दिनांक 08 मार्च, 2018 के द्वारा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, कोल्हान (जिला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर) के क्षेत्रान्तर्गत अधिसूचित निम्नांकित 14(चौदह) त्रुटिपूर्ण ग्रामीण मार्गों को निरस्त किया जाता है :-

कार्यालय, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, कोल्हान

जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

क्र० सं०	अधिसूचना सं० एवं दिनांक (जिसके द्वारा मार्ग अधिसूचित किया गया था)	अधिसूचना में क्र०सं०	मार्ग का नाम	कुल दूरी	NH की दूरी	SH की दूरी
1	418 09.03.2016	119	टाटा से भरभरिया भाया-हाता, चाईबासा, काटभारी	100	42	18.10
2	418 09.03.2016	120	टाटा से बेनिसागर भाया हाता, चाईबासा, भरभरिया	122	74	18.10
3	418 09.03.2016	121	टाटा से टोंटो भाया हाता, झींकपानी, ए० सी० सी० कॉलोनी	105	58	18.10
4	418 09.03.2016	122	टाटा से बालीबोध भाया हाता, चाईबासा, असुरा, कुमारडुंगी, मझा गाँव	120	52	18.10
5	418 09.03.2016	123	टाटा से सिमडेगा भाया हाता, चाईबासा, चक्रधरपुर, खूँटी	254	151	103
6	418 09.03.2016	124	टाटा से मुसाबनी भाया डिमना चौक, गालूडीह, घाटशिला, मौभंडार	60	45	-

7	418 09.03.2016	125	टाटा से रामगढ़ भाया चांडिल, तमाड़, बुंदू, राँची	180	175	-
8	418 09.03.2016	126	बहरागोड़ा से टाटा भाया धालभूमगढ़, घाटशिला, गालुडीह	100	96	-
9	213 08.03.2018	11	ग्राम काकराझौर से हुरलंगा, कशीदा, बड़ाबाकी से टाटा तक भाया- सुंदरनगर	62	37	-
10	213 08.03.2018	1	टाटा से जादूगोड़ा भाया-सुंदरनगर	32	-	4
11	213 08.03.2018	5	टाटा से चाकुलिया भाया सुंदरनगर, जादूगोड़ा, मुभंडार, घाटशिला, धालभूमगढ़	91	14	4
12	213 08.03.2018	10	ग्राम डैगाम से डुमरिया, मोसाबनी, जादूगोड़ा, आसनबो चा, टाटो, बेलटाँड़ होते हुए अभिखेदा मंदिर तक	101	2	-
13	418 09.03.2016	107	डुमरिया से जमशेदपुर भाया मुसाबनी एवं जादूगोड़ा	60	-	4
14	213 08.03.2018	6	टाटा से डुमरिया भाया सुन्दर नगर, मुसाबना	60	-	4

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेन्द्र हेमरोम,
सरकार के उपसचिव
झारखण्ड, राँची
